

KDDL Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79
Fax: +91 172 2548302, Website:www.kddl.com; CIN-L33302HP1981PLC008123



Ref: KDDL/CS/2024-25/16

Date: 18th May, 2024

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai - 400 051

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Trading Symbol : KDDL

Scrip Code : 532054

Subject: Newspaper Publication – Financial Results

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed copy of newspaper publications for Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Kumar
Company Secretary

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICIICI Bank Limited
Branch Office: ICIICI Bank Limited Plot No-23, New Rohatk Road Karol Bagh New Delhi-110005

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICIICI Bank Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred on section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

And as the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has Symbolic Possession of the property described herein in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(14) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICIICI Bank Limited.

S. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Kusain Vikas Khandelwal/Rakesh Kumar/Ashu Gupta/Anil Gupta/7720550089	Address-1: Dukan Situated At Village Narain Khurd Tehsil and District Badliana, (Measuring an Area- 39.82 Sq. Meter) Address-2: House Situated at Village Narain Khurd Tehsil and District Badliana, (Measuring an Area- 53.27 Sq. Meter) May 13, 2024	Rs. 22,41,471,00/-	Badliana

The above-mentioned borrower(s)/ guarantor(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged property shall be subject to the charge of ICIICI Bank Limited to satisfy the amount, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: May 16, 2024
Place: Badliana
Authorized Officer: ICIICI Bank Limited

KDDL LIMITED
(CIN : L33020HP1981PL C006123)

Regd. Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanao, Distt. Solan (H.P.) - 173220
Tel. : +91 172 548223 / 24 Fax : +91 172 548302
Website: www.kddl.com ; Email id: investor.complaints@kddl.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs except earnings per share)

S. No.	Particulars (Refer notes below)	Standalone		Consolidated	
		Quarter ended 31 March, 2024	Corresponding quarter ended 31 March, 2023	Quarter ended 31 March, 2024	Corresponding quarter ended 31 March, 2023
1.	Total income from operations	28284	8759	55370	35693
2.	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities (before tax, exceptional items and extraordinary items)	19581	1697	25402	4697
3.	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities before tax (after exceptional items and extraordinary items)	19581	1697	25402	4697
4.	Net Profit/(Loss) for the period from ordinary activities after tax (after exceptional items and extraordinary items)	17662	1267	22006	3481
5.	Total Comprehensive Income (Loss) for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	17670	1289	21916	3308
6.	Paid-up equity share capital (Face value of Rs 10 per share)	1254	1254	1254	1254
7.	Earnings per share of Rs 10/- each (not annualized):				
(a)	Basic (Rs)	140.87	9.97	175.52	20.40
(b)	Diluted (Rs)	140.87	9.97	175.52	20.40

Notes:

- The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14 May 2024. The Audited financial results for the current quarter and year ended 31 March 2024 are subject to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The unmodified review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange.
- The above is the extract of the detailed form of the Audited quarterly and annual financial result filed with the Stock Exchange under Section 13(12) of the Securities Interest (Enforcement) Rules, 2002 and the full form of the Audited financial results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com and the company's website www.kddl.com

For and on behalf of the Board of Directors: **Yashvardhan Saboo** (Chairman and Managing Director) DIN-00812158

GRAVITA INDIA LTD.
Regd. Office: 'SAURABH', Chitlora Road, Harsula Mod, Digi-Majura Road, Tehsil: Jagpur, 303 904, Raj, (INDIA)
Phone : +91-141-2622565, 2622697 Fax: +91-141-262441
Website: www.gravitaIndia.com CIN: L29308RJ1992PLC006870
E-mail : companysecretary@gravitaIndia.com

POSTAL BALLOT NOTICE

[Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read together with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 4 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated February 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and pursuant to other applicable laws and regulations, the resolutions(s) as set out in the Notice of Postal Ballot dated 13th May, 2024 are proposed to be passed through postal ballot only through remote e-voting by the Members of the Company.

The Company has completed dispatch of the Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement on 15th May, 2024 through electronic mode to the members at their e-mail address as registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. KFIn Technologies Limited and whose name appear in the Register of Members/ Record of Depositors as on cutoff date i.e. Friday, 10th May, 2024. The said Notice of Postal Ballot is also available on the Website of BSE Limited & National Stock Exchange of India Ltd and on the Company's Website: www.gravitaIndia.com, and on the website of CDCL at www.cdclindia.com. A person who is not a member as on cutoff date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Board of Directors (the "Board") has appointed Mr. Akshil Kumar Jagpur, Practicing Company Secretary (FCS 11285, CP No. 16300) partner of M/s. Pinchaa & Co., Jaipur, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-Voting process in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDCL) for the purpose of providing remote e-Voting facility to all its members. The necessary instructions for remote e-Voting has been set out in the Notice dated 13th May, 2024.

In case of shareholders who have not registered their email address, it is likely to state that in terms of the MCA Circulars, the Company will send Postal Ballot Notice in electronic form only and hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this Postal Ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only. Therefore, those shareholders who have not yet registered their email address are requested to get their email addresses registered or contact RTA viz. KFIn Technologies Limited on email at enward_ris@kfintech.com or to the company on email id i.e. companysecretary@gravitaIndia.com

The voting period, through remote e-voting, commences at 09:00 A.M. on Thursday, 16th May, 2024 and ends at 05:00 P.M. on Friday, 14th June, 2024 (IST). The e-Voting mode will be disabled by the CDCL for e-Voting thereafter. Any voting done by the member beyond the said date will not be valid and shall not be allowed beyond the said date. The voting right of the members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the company as on the cutoff date. Once vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA at enward_ris@kfintech.com

Further, Members holding shares as on the Cut-off date and who have not received postal ballot notice may apply to the company and obtain a duplicate thereof.

In case you have any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at www.cdclindia.com under help section or write an email to helpline_evd@cdclindia.com or contact the company at Gravita Tower, A-27-B, Shanti Path, Tilokraj Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan) India telephone no +91-141-4057800, E-mail - companysecretary@gravitaIndia.com contact Person: Nitesh Gupta, Company Secretary.

The results of voting by Postal Ballot will be declared/ announced by the Chairman or any other person authorised by him within the statutory time limit and the time limit and the results of the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed and shall also be displayed on the Company's website along with the Scrutinizer's Report.

By the order of the Board of Directors
For Gravita India Limited
Sd/-
Nitesh Gupta
Company Secretary & Compliance Officer
Date: 15th May, 2024
FCS-0984

TIJARIA POLYPIPPES LIMITED
REGD. OFF: SP-1-2316, RICO INDUSTRIAL AREA, RAMCHANDRAPURA, SITAPURA EXTENSION, JAIPUR-302022

TELEFAX: 0141-2337722 EMAIL: INVESTORS@TIJARIA-PPIES.COM CIN L25209RJ2006FC022828

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	3 Months ended 31st March, 2024 (Audited)	Year ended 31st March, 2024 (Audited)	Year ended 31st March, 2023 (Audited)
1.	Total Income from operations - and others	18.61	33.74	1401.37
2.	Net Profit/(Loss) for the period (Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax)	(71.36)	(289.84)	(844.50)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(71.36)	(291.64)	(845.55)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(71.36)	(291.64)	(845.55)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(71.36)	(291.64)	(845.55)
6.	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10/- each (not annualized))	2862.66	2862.66	2862.66
7.	Earnings per share of Rs. 10/- each (not annualized):			
(a)	Diluted (Rs)	(0.25)	(1.02)	(3.30)
(b)	Diluted (Rs)	(0.25)	(1.02)	(3.30)

Notes:

- The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 15th May, 2024.
- Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- The figures of the quarter ended March 31, 2024 are the balanced figures between debits and credits in respect of the full period of twelve months ending as at March 31, 2024 and the unaudited published year to date figures in respect of December 31, 2023, being the date of the end of the third quarter of the Financial Year.
- Operating Segments: The Company primarily operates in two segments i.e. Pipes & Fittings, the products constituted for each operating segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation systems; 2) Fittings includes Mink Blankets.
- The above is an extract of the detailed form of quarterly/yearly financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full form of the quarterly/yearly financial results are available on the websites of the stock exchanges i.e., www.bseindia.com, www.nseindia.com

For and on behalf of the Board: **Sd/-**
Praveen Jain Tijaria (Whole Time Director) DIN: 00115002

RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW
(Area of Jurisdiction Under Process)

80/1, Indira Nagar, Near Karam Singh Temple, Lucknow-226007
REGD. NO-1023

NOTICE UNDER RULE 3 OF SECURE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 80C OF THE INCOME TAX ACT, 1961

CANARA BANK
M/S FAHEEMUDIN ENTERPRISES AND ANOTHERS
1. M/s Faheemudin Enterprises H. No. 24, Shaheenjia Colony, Gali No. 3, Laxmi Gate Meerut-250002 Through its proprietor Faheemudin

2. Faheemudin S/o Mohammad Saleemuddin H. No. 24, Shaheenjia Colony, Gali No. 3, Laxmi Gate Meerut-250002

1. This is to notify that a sum of Rs. 62,78,025.26/- (Rs. sixty two lakh seventy eight thousand twenty five and paise twenty nine only) with interest 10.0% per annum in the loan account with monthly from the date of filing of the original application i.e. 18.09.2019 till is fully liquidated and costs succeeds and with cost jointly and severally in its realization from the certificate debt no. -1 & 2.

2. You are hereby directed to pay the sum within 15 days of the receipt of the Notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts to Banks and Financial Institutions Act, 1953.

3. You are hereby directed to declare an Affidavit the Particulars of the Recovery of Debts on 12.07.2024.

4. You are hereby directed to appear before the undersigned on 12.07.2024.

5. In addition to the sum aforesaid you will also be liable to pay the Following:

Details of cost:

1. Application Fees	Rs. 65,000
2. Advocates Fees	Rs. -
3. Publication of Notices	Rs. -
4. Miscellaneous	Rs. -

Given under my Hand And Seal at Lucknow this day of 30/APRIL/2024

RECOVERY OFFICER-

CAN FIN HOMES LTD.
CIN: L81106RJ1992PLC008989 Area: Canara Bank Building First Floor, Plot No. C-4, Sector-1, Noida
Pincode-201301 Email: info@canfinhomes.com Ph: 9120-29781646/5678; 7625979126

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFESI Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (SIRE Rules).

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Can Fin Homes Ltd., under SARFESI Act, in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers/guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below.

The said notices have been reviewed by the postal authorities / have not been duly acknowledged by the borrowers. Hence the Company by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice (as per the provisions of Rule 3 (1)). The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers, as per the details given below.

As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to the Company by the respective parties as detailed below:

Sr. No.	Name of Borrowers/Guarantors with the Address	Date of Demand Notice	Amount claimed as per Demand Notice	Description of the Secured Asset
1.	1. Mr. Bharu Chandra Roy S/o Krishna Chandra Roy (Applicant) Address - 1 Flat No 530 A, Naya Khand-3, Indraprastha, Ghazabad, UP, 201014 Address - 2 Vrbh International Park, Opp. Kone Sikkha Chowk Road, Kothrud, Pune - 411035 Address - 3 Flat No. 107, Grand Chandra, H.G. Plot, No. 107, Grand Chandra, Indraprastha, Ghazabad, 201014. 4. Mrs. Ravi Bhanu Chandra Roy (co-applicant) Address - 1 Flat No 530 A, Naya Khand-3, Indraprastha, Ghazabad, UP, 201014 Address - 2 Flat No. 107, Grand Chandra, H.G. Plot, No. 107, Grand Chandra, Indraprastha, Ghazabad, 201014. 3. Mr. Kumar Karti Mishra S/o Ruchi Mishra (Guarantor) Address: 1- D-123 Sector-9 Noida, U.P.201301	09-05-2024	Rs. 49,54,378 (Rupees Forty Nine Lakh Fifty Four Thousand Three Hundred Eighty Only)	Flat No. 8- HIG Type, Ground Floor (without Roof Rights), Freehold Plot No. Gyan Khand-017, Sector-10, Indraprastha, Ghazabad
	1. Mr. Vipin Bishnoi S/o Suresh Pral Singh (Applicant) Address - 1-Hs-727 South Park, Near Sagar, Road, Prabh-201009 Address - 2- Mrs. Shivraj Singh Group Sh-299, Shanti Nagar, Ghazabad, Uttar Pradesh-201002 Address - 3- Residential House Second Floor Top floor, Plot No G-62, Kharnu No. 1482, Bajaj Enclave, Village Rajpura, Pargana, Dausa, Tehsil And District Ghazabad-201002. 2. Mrs. Aakshika Vani Vinay Shrivastava (Applicant) Address - 1- B-169, Sector 11, Vidy Nagar, Ghazabad, Uttar Pradesh-201009 Address - 2- Residential House Second Floor Top floor, Plot No G-62, Kharnu No. 1482, Bajaj Enclave, Village Rajpura, Pargana, Dausa, Tehsil And District Ghazabad-201002. 3. Mr. Pralhad Singh S/o Pratap Singh (Guarantor) Address: 1- H No. 269, New Kirti Nagar, Ghazabad, UP, 201016. 1th Floor. 2: Up Roadway, Corporation, Kausambi Bus Depo, Vanshal Ghazabad-201012	09-05-2024	Rs. 20,39,096 (Rupees Twenty Thousand Three Hundred Ninety Six Only)	Residential House Second Floor (without Lifts) Thirdy Nine Thousand Ninety Six
	1. Mr. Ritesh Raj Thakur S/o Hiral Lal Thakur (Applicant) Address - 1-Hs-727 South Park, Near Sagar, Road, Prabh-201009 Address - 2- Andromeda Sales & Distribution Pvt. Ltd. 402-403 Deepal Building 92 Nehru Place Delhi-110019 Address - 3- Second Floor, Right Side, Porlun (without Lift), Measuring 26.68 Sq. Mts. Of Property Being No. 187, Situated At Jeevan Nagar, Kharnu No. 273/35, Kharnu No. 1482, Bajaj Enclave, Village Rajpura, Pargana, Dausa, Tehsil And District Ghazabad-201002. 4. Mrs. Sunita Paul W/o Ritesh Thakur (CO-Applicant) Address - 1-Hs-727 South Park Near Sagar, Road, Prabh-201009 Address - 2- Second Floor Top floor (without Lift), Measuring 26.68 Sq. Mts. Of Property Being No. 187, Situated At Jeevan Nagar, Kharnu No. 273/35, Kharnu No. 1482, Bajaj Enclave, Village Rajpura, Pargana, Dausa, Tehsil And District Ghazabad-201002. 5. Mr. Pradeep Kumar S/o Pradeep Kumar, Address: 1- 1th Floor, Enclave Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019	09-05-2024	Rs. 21,03,873 (Rupees Twenty One Lakh Three Thousand Eight Hundred Seventy Three Only)	Second Floor, Right Side Porlun (without Lifts), Measuring 25.08 Sq Mts Of Property Being No. 187, Situated At Jeevan Nagar, Kharnu No. 273/35, Kharnu No. 1482, Bajaj Enclave, Village Rajpura, Pargana, Dausa, Tehsil And District Ghazabad-201002. 2. Mrs. Sunita Paul W/o Ritesh Thakur (CO-Applicant) Address - 1- 1th Floor, Enclave Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019

*Payable with further interest at contractual rates as agreed from the date mentioned above till date of payment.

You are hereby called upon to pay the above said amount with contractual rate of interest within 60days from the date of publication of this notice, failing which the undersigned will be constrained to initiate action under SARFESI Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers/guarantors is invited to provisions of Section 13(9) of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets

Date: 16/05/2024 Place: Noida
Sd/- Authorized Officer Can Fin Homes Ltd.

MARKESH TRADING LIMITED
REGD OFFICE: C12, Dinkar Road, 69/80 Floor, N. Laxmi Place, New Delhi-110019
E-mail: enquiries@markeshtrading.com
Tel/Fax: +91-11-26219444

Notice is hereby given that Pursuant to Clause of the Listing Agreement, a meeting of its Board of Directors of the Company is to be held on the 16th day of May, 2024 at 4.30 p.m. at its Registered Office to consider and take an urgent Extraordinary Resolution of the Company for the Last quarter year ended 31st March 2024.

For Markesh Trading Ltd.
A. Bhatnagar
Director
Date: 15.05.2024

Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2020)

BESTO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
Having its Registered Office at C-52/E, Vasant Kunj, South Delhi, New Delhi, India.

In the matter of **BESTO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED**

NOTICE is hereby given to the General Public that the Company proposes to re-appoint to the Central Government (Regional Director, Northern Region, New Delhi) under Section 13(1) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of appointment of the Board of Directors of the Company in the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 06th May 2024 to re-appoint to the office of Director of the Company to Mr. Kaber Sabinlok, who is a resident of India.

Place: New Delhi
Date: 15.05.2024

BESTO ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
C-52/E, Vasant Kunj, South Delhi, New Delhi, India, 110070
DIN: 01032855
C-52/E, Vasant Kunj, South Delhi, New Delhi, India, 110070

NORTHERN RAILWAY
Tender Notice No. 14/2024-2025 Dated: 15.05.2024

Invitation of Tenders through E-procurement system

Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites tenders through e-procurement system for supply of the following items:

S.No.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing date
01	18241050	PRE-PRINTED COMPUTER TICKETS (ROLLS)	164430	10.06.2024
02	09243006A	SYNTHETIC ENAMEL, INTERIOR, UNDERCOATING, WHITE, LTR	60646	10.06.2024
03	09243001A	ENAMEL SYNTHETIC, EXTERIOR, FINISHING, BLACK, LTR	104174	10.06.2024
04	09243025	ENAMEL SYNTHETIC, EXTERIOR, FINISHING, SIGNAL RED, LTR	89965	17.06.2024
05	09243014A	ENAMEL SYNTHETIC, EXTERIOR, FINISHING, PALE CREAM, LTR	20664	25.06.2024
06	11231076	STAINLESS STEEL STRAIGHT A/R BRASS PIPE	7420	01.07.2024
07	19241819	SHUNTING CONTACTOR ASS'Y.	263	19.08.2024

Notes: 1. Vendors may visit the IREPS website for details. 2. No manual offer will be entertained. www.ireps.gov.in for details. 3. Bids/ tenders will be opened on 15.05.2024 at 10.00 AM.

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)
Corporate Office: 10th Floor, Plot No. 102, 2 & 3, 2nd Phase, Main Road, Sector-10, Noida, U.P. 201301

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMovable PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and provisions to rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Company by the financial processions of which has been taken by the Authorized Officer of SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.) Secured Credit will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 16/05/2024 at 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery of Rs. 77,70,288.25. (Rupees Seventy Seven Lakh Seventy Thousand Three Hundred Eight And Twenty Eight Paise Only) and further interest and other expenses therein till the date of realization, due to Fullerton India Credit Company Limited Secured Creditor from the Borrower and Guarantor(s) namely 1) ARUN KUMAR TIWARI 2) RAM NISHU TIWARI 3) SHANTI DEVI 4) ABHISHEK KUMAR TIWARI.

This response price will be Rs. 67,50,000/- (Rupees Sixty Seven Lakh Fifty Thousand Only) and the Earnest Money Deposit (EMD) will be Rs. 15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakh Five Thousand Only). The last date of EMD deposit is 30.05.2024.

For further details please contact at Anam Kamran anam.kamran@fullertonindia.com or +91 8866870194 or Harmanjit Jolly harmanjit.jolly@fullertonindia.com or +91 8656941028.

Description of Immovable Property: A PROPERTY RESIDENTIAL HOUSE ALONG WITH STANDING STRUCTURE MEASURING 64'27 FEET WEST BY 27 FEET NORTH BY 32 FEET, SURROUNDING AREA 2064.84 SQ. FT. 16.26 ACRES HAVING TOTAL COVERED AREA 1482 SQ. FT. 16.98 ACRES, BEHOLDING OF THE PROPERTY KHA No.1397 (OLD N.4388), SITUATED AT 37 BUNDLES LINE ROOFTOP PANGANI, TEHSIL, ROHTAK, DISTT. HARIDWAR, WHICH IS OWNED AS UNDER: SALE: PARAGATE 77 WIDE WEST-HOUSE OF SUGAN SINH - NORTH HOUSE OF BRUNAL SOUTH-PROPERTY 8 & SHAMIA.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Fullerton India Credit Company Limited Secured Creditor's website at: www.smfgindia.com / <https://auctonline.auctindia.gov.in>

Place: Haridwar Date: 15.05.2024
Sd/- Authorized Officer: SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

ROLLATAINERS LIMITED
CIN: L21014HR1988PLC004844
Regd. Off. Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari, Haryana-121306
Phone: 0174-2433760, 2422200. Email: enquiries@rollainers.com
Website: www.rollainers.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to the Members of the Company that the 62nd Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 04th June, 2024 at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. 73-74, Phase- III, Industrial Area, Dharuhera, District- Rewari 121306, to transact the business as set out in the notice of EGM.

In compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 10th May, 2024 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company & M/s. Besto Electronics & Computer Services (P) Limited, Registrar & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Tuesday, 14th May, 2024.

The Notice of EGM is available at company's website at www.rollainers.in and CDCL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e. www.bseindia.com and NSE Website i.e. www.nseindia.com.

Further the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at Extra-Ordinary General Meeting (EGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDCL") as agency to provide remote e-voting facility.

Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with persons whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cutoff date of 09th May 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.

The remote e-Voting period will commence at Sunday, 02nd June 2024 (09:00 A.M.) to Tuesday, 04th June 2024 (06:00 P.M.). During this period, members shall cast their votes electronically. E-voting by electronic means shall not be allowed beyond Tuesday, 04th June 2024 (5:00 P.M.). The e-Voting mode shall be disabled by CDCL thereafter.

Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote on the date of meeting. For the detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may refer in the section 'Notice' in the Notice of the EGM. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM.

If you have any queries or issues regarding e-Voting you can write an email to helpline_evd@cdclindia.com or contact 02223282828/022-232824243. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, the manner of casting vote through Remote e-Voting or voting during the EGM.

The results of the EGM will be declared within 2 working days from the conclusion of the EGM and the declaration of the results of the EGM shall be published on the Company's website at www.rollainers.in and the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For ROLLATAINERS LIMITED
Sd/-
AARTI JAIN
CHAIRPERSON
DIN: 00142344

Date: 16/05/2024
Place: New Delhi

